

भाषा की बात-

प्रश्न 1.

कविता में आए 'वर दे', 'भर दे' की तरह अन्य तुकान्त शब्दों को छाँटकर लिखिए।

उत्तर-

'कर दे', 'स्वर दे', अन्य तुकान्त शब्द हैं।

प्रश्न 2.

ज्योतिः + मय = ज्योतिर्मय, निः+ झर = निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है। यह विसर्ग सन्धि है। इसी प्रकार के दो शब्द लिखिए तथा उनका सन्धि विच्छेद कीजिए।

उत्तर-

दुः + गति = दुर्गति, निः + धन = निर्धन

प्रश्न 3.

विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। 'वीणा वादिनी' का अर्थ है 'वीणा को बजाने वाली' अर्थात् सरस्वती। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुव्रीहि समास है। इनका विग्रह कीजिए।

उत्तर-

गजानन- गज के समान आनन (सिर) है जिसका अर्थात् श्री गणेश पीताम्बर- पीले हैं अंबर (वस्त्र) जिसके अर्थात् विष्णु चतुरानन- चार हैं आनन जिसके अर्थात् ब्रह्मा

प्रश्न 4.

'नव गति' में 'नव' गुणवाचक विशेषण है, यह गति, शब्द की विशेषता बताता है। कविता में 'नव' अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए।

उत्तर-

कविता में 'नव' शब्द 'लय', 'ताल', 'कंठ', 'जलद', 'नभ', 'विहग-वृन्द', 'पर' और 'स्वर' शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। इन शब्दों में विसर्ग कारक हुआ है